

ये अव्यक्त इशारे



स्वयं और सर्व के प्रति मन्सा द्वारा
योग की शक्तियों का प्रयोग करो



29-10-2025

पहले स्वयं पर योग के प्रयोग करके देखो। हर मास वा हर 15 दिन के लिये कोई न कोई विशेष गुण वा कोई न कोई विशेष शक्ति का स्व प्रति प्रयोग करके देखो क्योंकि संगठन में वा सम्बन्ध सम्पर्क में पेपर तो आते ही हैं, तो पहले अपने ऊपर प्रयोग करके चेक करो, कोई भी पेपर आया तो किस गुण वा शक्ति का प्रयोग करने से कितने समय में सफलता मिली? जब स्व के प्रति सफल होंगे तब औरों के प्रति भी प्रयोग करने का उमंग-उत्साह स्वतः ही बढ़ता जायेगा।

**Experiment on yourself and others with
your mind with the powers of yoga.**

In order to make this practice powerful, first of all experiment on yourself. Every month or every 15 days, take one or another particular virtue or power and experiment on yourself with this. There will be test papers in gatherings and in connections and relationships. So, first of all, experiment on yourself and see how many times you were successful with any particular virtue or power. When you experience success on yourself, the zeal and enthusiasm to experiment with this on others will then automatically increase in your heart.